



Series : 1SRQP

SET~3



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code **67/1/3**

रोल नं.
Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



लेखाशास्त्र
ACCOUNTANCY



निर्धारित समय : 3 घण्टे
Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80
Maximum Marks : 80

नोट :

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 39 हैं।
- (II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- (III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं।
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

NOTE :

- (I) Please check that this question paper contains 39 printed pages.
- (II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (III) Please check that this question paper contains 34 questions.
- (IV) Please write down the serial number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- (V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है : भाग - क तथा भाग - ख।
- (iii) भाग - क सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।
- (iv) भाग - ख के दो विकल्प हैं। परीक्षार्थियों को केवल एक ही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।

विकल्प-I : वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

विकल्प-II : अभिकलित्र लेखांकन

- (v) प्रश्न संख्या 1 से 16 (भाग-क) तथा प्रश्न संख्या 27 से 30 (भाग-ख) बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (vi) प्रश्न संख्या 17 से 20 (भाग-क) तथा प्रश्न संख्या 31 और 32 (भाग-ख) लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vii) प्रश्न संख्या 21, 22 (भाग-क) तथा प्रश्न संख्या 33 (भाग-ख) दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-I के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न संख्या 23 से 26 (भाग-क) तथा प्रश्न संख्या 34 (भाग-ख) दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-II के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, प्रत्येक भाग के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।



भाग - क

(साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)

1. आशीष और विशेष की पुस्तकें 31 मार्च, 2025 को उनकी विनियोजित पूंजी ₹ 4,00,000 दर्शा रही थीं। यदि सामान्य लाभ ₹ 60,000 हैं तथा अधिलाभ ₹ 40,000 हैं, तो प्रतिफल की सामान्य दर है :

- (A) 10%
- (B) 25%
- (C) 15%
- (D) 4%

1

67/1/3

2

{ }



General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **34** questions. All questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into **two** Parts : **Part – A** and **Part – B**.
- (iii) **Part – A** is **compulsory** for all candidates.
- (iv) **Part – B** has **two** options. Candidates have to attempt only **one** of the given options.

Option-I : Analysis of Financial Statements

Option-II : Computerised Accounting

- (v) Questions number **1** to **16** (Part-A) and Questions number **27** to **30** (Part-B) are multiple choice questions. Each question carries **1** mark.
- (vi) Questions number **17** to **20** (Part-A) and Questions number **31** and **32** (Part-B) are Short answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vii) Questions number **21, 22** (Part-A) and Question number **33** (Part-B) are Long answer type-I questions. Each question carries **4** marks.
- (viii) Questions number **23** to **26** (Part-A) and Question number **34** (Part-B) are Long answer type-II questions. Each question carries **6** marks.
- (ix) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in few questions in each of the parts.

PART – A

(Accounting for Partnership Firms and Companies)

1. The books of Ashish and Vishesh showed that their capital employed on 31st March, 2025 was ₹ 4,00,000. If the normal profits are ₹ 60,000 and super profits are ₹ 40,000, the normal rate of return is :



- (A) 10%
- (B) 25%
- (C) 15%
- (D) 4%

1



2. साक्षी लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 500 समता अंशों का, जिन्हें ₹ 2 प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, ₹ 4 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) की दूसरी एवं अंतिम याचना का भुगतान न करने पर, हरण कर लिया। इन अंशों को अधिकतम कितनी छूट राशि पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है ?
- (A) ₹ 1 प्रति अंश (B) ₹ 6 प्रति अंश
(C) ₹ 8 प्रति अंश (D) ₹ 5 प्रति अंश
3. ललिता, शिवानी तथा माधुरी एक फर्म की साझेदार थी तथा 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थी। 31 मार्च, 2025 को माधुरी फर्म से सेवानिवृत्त हो गयी। सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके पूँजी खाते में ₹ 1,80,000 का शेष था। ललिता तथा शिवानी उसके दावे के पूर्ण निपटान में उसे ₹ 2,25,000 का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। माधुरी की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति थी :
- (A) ₹ 1,80,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 45,000 (D) ₹ 2,70,000
4. चमन तथा वाटिका एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 5 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उन्होंने फर्म के लाभों में 1/5 भाग के लिए मोहन को एक नये साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। मोहन ने अपना भाग चमन तथा वाटिका से बराबर-बराबर अधिग्रहित किया। चमन, वाटिका तथा मोहन का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा :
- (A) 2 : 2 : 1 (B) 31 : 41 : 18
(C) 41 : 31 : 18 (D) 7 : 8 : 5
5. सिद्धि, ज्ञान तथा गायत्री एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को उनकी फर्म का विघटन हो गया। विघटन के समय ₹ 25,000 के एक देनदार ने, जिसका ऋण पूर्व में डूबत ऋण के रूप में अपलिखित कर दिया गया था, राशि के 40% का भुगतान कर दिया। उपरोक्त लेनदेन के लिए लेखांकन होगा :
- (A) ₹ 10,000 डूबत ऋण वसूली खाते में क्रेडिट किये जायेंगे।
(B) ₹ 10,000 देनदार के व्यक्तिगत खाते में क्रेडिट किये जायेंगे।
(C) ₹ 10,000 वसूली खाते में क्रेडिट किये जायेंगे।
(D) ₹ 10,000 डूबत ऋण खाते में क्रेडिट किए जायेंगे।



2. Sakshi Ltd. forfeited 500 equity shares of ₹ 10 each, issued at a premium of ₹ 2 per share for non-payment of second and final call of ₹ 4 per share (including premium).

The maximum amount of discount at which these shares can be reissued is :

- (A) ₹ 1 per share (B) ₹ 6 per share
(C) ₹ 8 per share (D) ₹ 5 per share 1

3. Lalita, Shivani and Madhuri were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2 : 1. Madhuri retired from the firm on 31st March, 2025. The balance in her capital account on the date of her retirement was ₹ 1,80,000. Lalita and Shivani agreed to pay her ₹ 2,25,000 in full settlement of her claim.

The goodwill of the firm on Madhuri's retirement was :

- (A) ₹ 1,80,000 (B) ₹ 2,25,000
(C) ₹ 45,000 (D) ₹ 2,70,000 1

4. Chaman and Vatika were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 5. They admitted Mohan as a new partner for 1/5th share in the profits of the firm. Mohan acquired his share equally from Chaman and Vatika. The new profit sharing ratio of Chaman, Vatika and Mohan will be :

- (A) 2 : 2 : 1 (B) 31 : 41 : 18
(C) 41 : 31 : 18 (D) 7 : 8 : 5 1

5. Sidhi, Gyan and Gayatri were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2 : 2. On 31st March, 2025 their firm was dissolved. At the time of dissolution a debtor amounting to ₹ 25,000 whose debt had been previously written off as bad debt paid 40% of the amount. The accounting treatment for the above transaction will be :

- (A) ₹ 10,000 will be credited to bad debts recovered account.
(B) ₹ 10,000 will be credited to the debtor's personal account.
(C) ₹ 10,000 will be credited to realisation account.
(D) ₹ 10,000 will be credited to bad debts account. 1



6. निधि एवं कुनाल एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे । उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 3,00,000 तथा ₹ 2,00,000 थी । वे 6% वार्षिक दर से पूँजी पर ब्याज के अधिकारी थे । वर्ष के दौरान फर्म ने ₹ 15,000 का लाभ अर्जित किया ।

साझेदारों की पूँजी पर ब्याज होगा :

- (A) निधि ₹ 18,000; कुनाल ₹ 12,000 (B) निधि ₹ 7,500; कुनाल ₹ 7,500
(C) निधि ₹ 9,000; कुनाल ₹ 6,000 (D) निधि ₹ 12,000; कुनाल ₹ 3,000 1

7. (a) धरम, करम तथा रमन एक फर्म के साझेदार थे तथा 7 : 8 : 5 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 31 मार्च, 2025 को रमन फर्म से सेवानिवृत्त हो गया । धरम तथा करम ने भावी लाभों को 11 : 9 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया । उनका अधिलाभ अनुपात होगा :

- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 4 : 1 (D) 2 : 1 1

अथवा

- (b) दीन, राजू तथा हरि एक फर्म के साझेदार थे तथा 7 : 6 : 7 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 31 मार्च, 2025 को राजू का देहान्त हो गया । दीन तथा हरि ने राजू के भाग को बराबर-बराबर लेने का निर्णय लिया । दीन तथा हरि के बीच नया लाभ-विभाजन अनुपात होगा :

- (A) 1 : 1 (B) 7 : 6
(C) 6 : 7 (D) 3 : 2 1

8. सूर्या लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 50,000 समता अंशों का निर्गमन किया । राशि निम्न प्रकार से देय थी :
आवेदन पर – ₹ 3 प्रति अंश
आबंटन पर – ₹ 2 प्रति अंश
प्रथम एवं अंतिम याचना पर – शेष

रूषा ने, जिसे 700 अंश आबंटित किए गए थे, सम्पूर्ण अंश राशि का भुगतान आबंटन पर ही कर दिया । राज ने, जिसे 300 अंश आबंटित किए गए थे, प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया । प्रथम एवं अंतिम याचना के लिए बैंक खाते में डेबिट की जाने वाली राशि उसके देय होने के बाद होगी :

- (A) ₹ 2,50,000 (B) ₹ 2,48,500
(C) ₹ 2,45,000 (D) ₹ 2,52,000 1



6. Nidhi and Kunal were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 1. Their capitals were ₹ 3,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. They were entitled to interest on capital @ 6% p.a. The firm earned a profit of ₹ 15,000 during the year.

Interest on partners' capitals will be :

- (A) Nidhi ₹ 18,000 ; Kunal ₹ 12,000
(B) Nidhi ₹ 7,500 ; Kunal ₹ 7,500
(C) Nidhi ₹ 9,000 ; Kunal ₹ 6,000
(D) Nidhi ₹ 12,000 ; Kunal ₹ 3,000

1

7. (a) Dharam, Karam and Raman were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7 : 8 : 5. On 31st March, 2025, Raman retired from the firm. Dharam and Karam decided to share profits in future in the ratio of 11 : 9. Their gaining ratio will be :

- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 4 : 1 (D) 2 : 1

1

OR

- (b) Deen, Raju and Hari were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7 : 6 : 7. On 31st March, 2025 Raju died. Deen and Hari decided to take over Raju's share equally. The new profit sharing ratio between Deen and Hari will be :

- (A) 1 : 1 (B) 7 : 6
(C) 6 : 7 (D) 3 : 2

1

8. Surya Ltd. issued 50,000 equity shares of ₹ 10 each. The amount was payable as follows :

on Application – ₹ 3 per share

on Allotment – ₹ 2 per share

on First and Final Call – the balance

Usha, to whom 700 shares were allotted, paid her entire share money on allotment. Raj, to whom 300 shares were allotted did not pay the first and final call. The amount to be debited to Bank Account for first and final call after it becomes due will be :

- (A) ₹ 2,50,000 (B) ₹ 2,48,500
(C) ₹ 2,45,000 (D) ₹ 2,52,000

1



9. यहाँ दो कथन हैं, अभिकथन (A) तथा कारण (R) :

अभिकथन (A) : साझेदारी समझौता साझेदारों के बीच संबंधों का आधार बन जाता है ।

कारण (R) : साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच व्यवसाय करने तथा इसके लाभ-हानि विभाजित करने के समझौते का परिणाम है ।

निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

(A) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है ।

(B) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है ।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है ।

(D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है ।

1

10. (a) यदि ₹ 10 प्रत्येक के 600 अंशों का हरण कर लिया गया है जिन्हें ₹ 1 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है तथा जिस पर ₹ 8 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) माँगे गए हैं तथा ₹ 6 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) का भुगतान किया गया है, तो 'अंश हरण खाते' को _____ किया जाएगा _____ से ।

(A) क्रेडिट, ₹ 3,000

(B) डेबिट, ₹ 3,000

(C) डेबिट, ₹ 3,600

(D) क्रेडिट, ₹ 3,600

1

अथवा

(b) टी.डी. लिमिटेड ने ₹ 10,00,000 के 9% ऋणपत्रों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया, जिनका शोधन प्रीमियम की एक निश्चित दर पर किया जाना था । इन 9% ऋणपत्रों के निर्गमन पर ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाते को ₹ 1,00,000 से क्रेडिट किया गया । ऋणपत्रों के निर्गमन पर 'ऋणपत्र निर्गमन हानि' की राशि थी :

(A) ₹ 1,00,000

(B) ₹ 2,00,000

(C) ₹ 3,00,000

(D) शून्य

1



9. There are two statements Assertion (A) and Reason (R) :

Assertion (A) : Partnership Agreement becomes the basis of relationship among the partners.

Reason (R) : Partnership is the result of an agreement between two or more persons to do business and share its profits and losses.

Choose the correct option from the following :

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
(C) Assertion (A) is correct, but Reason (R) is incorrect.
(D) Assertion (A) is incorrect, but Reason (R) is correct. 1

10. (a) If 600 shares of ₹ 10 each, issued at a premium of ₹ 1 per share are forfeited on which ₹ 8 per share (including premium) have been called and ₹ 6 per share (including premium) have been paid, then 'Share Forfeiture Account' will be _____ by _____.

- (A) credited, ₹ 3,000 (B) debited, ₹ 3,000
(C) debited, ₹ 3,600 (D) credited, ₹ 3,600 1

OR

(b) T.D. Ltd. issued ₹ 10,00,000, 9% debentures at a discount of 10% redeemable at a certain rate of premium. On issue of these 9% debentures, the premium on redemption of debentures account was credited by ₹ 1,00,000. The amount of 'loss on issue of debentures' was :

- (A) ₹ 1,00,000 (B) ₹ 2,00,000
(C) ₹ 3,00,000 (D) Nil 1



11. 1 अप्रैल, 2024 को रजत लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 6,000, 10% ऋणपत्रों का 8% बट्टे पर निर्माण किया। 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऋणपत्रों पर देय ब्याज की कुल राशि होगी :

- (A) ₹ 60,000 (B) ₹ 48,000
(C) ₹ 36,000 (D) ₹ 30,000

1

12. (a) तरुण तथा तेज एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2024 को तेज ने फर्म को ₹ 50,000 का ऋण दिया। ऋण पर ब्याज लगाने से पूर्व फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 3,75,000 था। फर्म अपनी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बन्द करती है। लाभ-हानि खाते से लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरित की गयी लाभ की राशि होगी :

- (A) ₹ 3,75,000 (B) ₹ 3,72,000
(C) ₹ 4,25,000 (D) ₹ 3,78,000

1

अथवा

(b) अशोक तथा वासु एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे। 31 मार्च, 2025 को उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 3,00,000 तथा ₹ 3,75,000 थी। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष में वासु ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ₹ 40,000 का आहरण किया तथा ₹ 1,50,000 की अतिरिक्त पूँजी व्यवसाय में लगाई। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ ₹ 1,40,000 था। वर्ष के आरम्भ में वासु की पूँजी थी :

- (A) ₹ 2,75,000 (B) ₹ 4,25,000
(C) ₹ 2,05,000 (D) ₹ 3,45,000

1

13. सोनी तथा कुश एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 5 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे। हितेश को फर्म के लाभों में $\frac{1}{5}$ भाग के लिए एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया गया। सामान्य संचय, ख्याति तथा परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं देयताओं के पुनर्निर्धारण पर लाभ सम्बन्धी सभी समायोजनों को करने के पश्चात् सोनी तथा कुश के पूँजी खातों के शेष क्रमशः ₹ 7,00,000 तथा ₹ 13,00,000 थे। हितेश फर्म के लाभों में अपने $\frac{1}{5}$ भाग के लिए आनुपातिक पूँजी लाया। हितेश द्वारा लाई गई आनुपातिक पूँजी की राशि थी :

- (A) ₹ 25,00,000 (B) ₹ 20,00,000
(C) ₹ 5,00,000 (D) ₹ 10,00,000

1



11. On 1st April, 2024, Rajat Ltd. issued 6,000, 10% debentures of ₹ 100 each at a discount of 8%. The total amount of interest due on debentures for the year ended 31st March, 2025 will be :

- (A) ₹ 60,000 (B) ₹ 48,000
(C) ₹ 36,000 (D) ₹ 30,000

1

12. (a) Tarun and Tej were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. On 1st April 2024, Tej had given a loan of ₹ 50,000 to the firm. The net profit of the firm before charging interest on loan was ₹ 3,75,000. The firm closes its books on 31st March every year. The amount of profit transferred from Profit and Loss Account to Profit and Loss Appropriation Account will be :

- (A) ₹ 3,75,000 (B) ₹ 3,72,000
(C) ₹ 4,25,000 (D) ₹ 3,78,000

1

OR

(b) Ashok and Vasu were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3. Their capitals on 31st March, 2025 were ₹ 3,00,000 and ₹ 3,75,000 respectively. During the year ended 31st March, 2025 Vasu withdrew ₹ 40,000 for his personal use and introduced ₹ 1,50,000 as additional capital in the business. Profit of the firm for the year ended 31st March, 2025 was ₹ 1,40,000. Vasu's capital in the beginning of the year was :

- (A) ₹ 2,75,000 (B) ₹ 4,25,000
(C) ₹ 2,05,000 (D) ₹ 3,45,000

1

13. Soni and Kush were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 5. Hitesh was admitted as a new partner for 1/5th share in the profits of the firm. After all adjustments regarding general reserve, goodwill, and gain on revaluation of assets and reassessment of liabilities, the balances in capital accounts of Soni and Kush were ₹ 7,00,000 and ₹ 13,00,000 respectively. Hitesh brought in proportionate capital for his 1/5th share in the profits of the firm. The amount of proportionate capital brought in by Hitesh was :

- (A) ₹ 25,00,000 (B) ₹ 20,00,000
(C) ₹ 5,00,000 (D) ₹ 10,00,000

1



14. (a) निम्न में से कौन सा संपार्श्विक प्रतिभूति के विषय में सही नहीं है ?
- (A) यह एक प्राथमिक प्रतिभूति होती है । (B) यह एक अतिरिक्त प्रतिभूति होती है ।
- (C) यह एक सहायक प्रतिभूति होती है । (D) यह एक द्वितीयक प्रतिभूति होती है । 1

अथवा

- (b) 'एक कम्पनी का गठन कम्पनी कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, यह निम्न में से कम्पनी की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है ?
- (A) सामान्य मुहर (B) सतत उत्तराधिकार
- (C) निगमित इकाई (D) सीमित देयता 1

15. (a) चंदन, रवि तथा महेश एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 4 : 1 अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 1 अप्रैल, 2025 से उन्होंने भावी लाभों को 3 : 2 : 1 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया । उस तिथि को फर्म की पुस्तकों में ₹ 7,00,000 का सामान्य संचय विद्यमान था, जिसे उन्होंने आपस में बाँटने का निर्णय लिया । साझेदारों के बीच सामान्य संचय किस अनुपात में बाँटा जायेगा ?
- (A) नये लाभ विभाजन अनुपात में (B) पुराने लाभ विभाजन अनुपात में
- (C) त्याग/अधिलाभ अनुपात में (D) बराबर-बराबर 1

अथवा

- (b) सुमन तथा तान्या एक फर्म के साझेदार थे तथा 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे । 1 अप्रैल, 2025 से उन्होंने लाभों को बराबर-बराबर बाँटने का निर्णय लिया । उस तिथि को फर्म की पुस्तकों में फर्नीचर ₹ 4,50,000 पर दिखाया गया था । लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय इसका मूल्य 10% कम पाया गया । नए स्थिति विवरण में फर्नीचर को दिखाया जाएगा :



- (A) ₹ 4,05,000 से (B) ₹ 4,50,000 से
- (C) ₹ 4,95,000 से (D) ₹ 5,00,000 से 1



14. (a) Which of the following is **not** correct about collateral security ?
- (A) It is a primary security.
 - (B) It is an additional security.
 - (C) It is a subsidiary security.
 - (D) It is a secondary security. 1

OR

- (b) 'A company is formed according to the provisions of Company Law' indicates which of the following characteristics of a company ?
- (A) Common Seal
 - (B) Perpetual Succession
 - (C) Body Corporate
 - (D) Limited Liability 1

15. (a) Chandan, Ravi and Mahesh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 4 : 1. From 1st April, 2025 they decided to share the future profits in the ratio of 3 : 2 : 1. On that date there existed a general reserve of ₹ 7,00,000 in the books of the firm which they decided to distribute among themselves.
- In which ratio will the general reserve be distributed among the partners ?
- (A) New profit sharing ratio
 - (B) Old profit sharing ratio
 - (C) Sacrificing / Gaining ratio
 - (D) Equally 1

OR

- (b) Suman and Tanya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 1. With effect from 1st April, 2025, they decided to share the profits equally. On that date furniture was appearing in the books of the firm at ₹ 4,50,000. At the time of change in the profit sharing ratio, it was found to be undervalued by 10%. In the new balance sheet, furniture will be shown at :
- (A) ₹ 4,05,000
 - (B) ₹ 4,50,000
 - (C) ₹ 4,95,000
 - (D) ₹ 5,00,000 1





16. तुला, राम तथा माधवी एक फर्म के साझेदार थे। साझेदारी संलेख में साझेदारों के आहरण पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज का प्रावधान था। फर्म प्रतिवर्ष अपने खाते 31 मार्च को बन्द करती है। 31 दिसम्बर, 2025 से शुरू करके माधवी ने प्रत्येक माह के अन्त में ₹ 40,000 का आहरण अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया। माधवी के आहरण पर ब्याज होगा :

- (A) ₹ 19,200 (B) ₹ 4,800
(C) ₹ 2,400 (D) ₹ 1,600

1

17. पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक फर्म के औसत लाभ ₹ 4,00,000 हैं। इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर विनियोजित पूँजी की 10% है। व्यवसाय की परिसम्पत्तियाँ ₹ 50,00,000 तथा इनकी बाह्य देयताएँ ₹ 20,00,000 थीं।

फर्म की ख्याति की गणना कीजिए :

- (i) अधिलाभों के पूँजीकरण विधि द्वारा
(ii) अधिलाभ विधि द्वारा यदि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के तीन वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाए।

3

18. (a) रौनक कॉटन लिमिटेड ने हैवी मशीन्स लिमिटेड से ₹ 6,80,000 की मशीनरी क्रय की। हैवी मशीन्स लिमिटेड को ₹ 50 प्रत्येक के 10,500 समता अंशों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित करके तथा शेष का एक चेक द्वारा भुगतान किया गया।

रौनक कॉटन लिमिटेड की पुस्तकों में उपरोक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

अथवा

- (b) नीयो लिमिटेड ने मदुरा लिमिटेड से ₹ 25,00,000 की परिसम्पत्तियों तथा ₹ 12,00,000 की देयताओं का अधिग्रहण ₹ 18,00,000 के क्रय प्रतिफल के बदले किया। नीयो लिमिटेड ने क्रय प्रतिफल के सम्पूर्ण भुगतान में ₹ 100 प्रत्येक के 11% ऋणपत्रों को 10% बट्टे पर निर्गमित किया। नीयो लिमिटेड की पुस्तकों में उपरोक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3



16. Tula, Ram and Madhvi were partners in a firm. The partnership deed provided for interest on partners drawings @ 12% p.a. The firm closes its books on 31st March every year. Starting from 31st December, 2025 Madhvi withdrew ₹ 40,000 at the end of every month for her personal use. Interest on Madhvi's drawings will be :

- (A) ₹ 19,200 (B) ₹ 4,800
(C) ₹ 2,400 (D) ₹ 1,600

1

17. Average profit of a firm during the last few years is ₹ 4,00,000. In similar business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Assets of the business were ₹ 50,00,000 and its external liabilities were ₹ 20,00,000. Calculate the value of goodwill by :

- (i) Capitalisation of super profits method
(ii) Super profits method if the goodwill is valued at three years purchase of super profits.

3

18. (a) Raunak Cotton Ltd. purchased machinery of ₹ 6,80,000 from Heavy Machines Ltd. The Payment to Heavy Machines Ltd. was made by issuing 10,500 equity shares of ₹ 50 each at a premium of 20% and the balance through a cheque.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Raunak Cotton Ltd.

3

OR

(b) Neo Ltd. took over assets of ₹ 25,00,000 and liabilities of ₹ 12,00,000 of Madura Ltd. for a purchase consideration of ₹ 18,00,000. Neo Ltd. issued 11% debentures of ₹ 100 each at a discount of 10% in full satisfaction of the purchase consideration.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Neo Ltd.

3



19. (a) सुल्तान, सिंह तथा तुलसी एक फर्म के साझेदार थे तथा 9 : 7 : 4 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 6,00,000; ₹ 5,00,000 तथा ₹ 4,00,000 थी। साझेदारी संलेख में पूँजी पर 10% वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान था। वर्ष के अंतिम खाते तैयार करने के पश्चात् यह पाया गया कि पूँजी पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगाया गया है।

आवश्यक समायोजन रोज़नामचा प्रविष्टि कीजिए।

3

अथवा

- (b) समीर तथा मनवीर एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2024 को उन्होंने लाभों में 1/5 भाग के लिए संदीप को ₹ 80,000 की न्यूनतम गारंटी राशि के साथ एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। समीर तथा मनवीर ने पहले की तरह ही लाभों को बाँटना जारी रखा परन्तु संदीप को दी गयी गारंटी के कारण हुई किसी भी कमी को 3 : 5 के अनुपात में वहन करने पर सहमति हुई। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 3,20,000 था।

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समीर, मनवीर तथा संदीप का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

3

20. सुधीर तथा राजीव एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उनके साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि सुधीर को शुद्ध लाभ का 7% कमीशन देय होगा।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष को फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 1,00,000 था।

सुधीर को कमीशन देने तथा इसे लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

21. 1 अप्रैल, 2024 को यश लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 20,000, 9% ऋणपत्रों को 6% बट्टे पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इन ऋणपत्रों का शोधन पाँच वर्षों के पश्चात् 10% प्रीमियम पर करना था। निर्गमन पूर्णरूप से अभिदत्त हुआ तथा सभी आवेदकों को पूर्णरूप से ऋणपत्रों का आवंटन कर दिया गया। 31 मार्च, 2025 को कम्पनी की पुस्तकों में प्रतिभूति प्रीमियम खाते में ₹ 1,80,000 का शेष था।

9% ऋणपत्रों के निर्गमन तथा ऋणपत्र निर्गमन पर हुई हानि को अपलिखित करने के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। 'ऋणपत्र निर्गमन हानि खाता' भी तैयार कीजिए।

4



19. (a) Sultan, Singh and Tulsi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 9 : 7 : 4. Their fixed capitals were ₹ 6,00,000, ₹ 5,00,000 and ₹ 4,00,000. The partnership deed provided that interest on partners capital accounts will be allowed at 10% per annum. After the final accounts for the year were prepared, it was found that interest on capital was allowed @ 12% per annum.

Pass the necessary adjusting journal entry.

3

OR

- (b) Sameer and Manveer were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3. On 1st April, 2024, they admitted Sandeep as a new partner for 1/5th share in the profits with a guaranteed minimum amount of ₹ 80,000. Sameer and Manveer continue to share profits as before but agreed to bear any deficiency on account of guarantee to Sandeep in the ratio of 3 : 5. The net profit of the firm for the year ended 31st March, 2025 was ₹ 3,20,000.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account of Sameer, Manveer and Sandeep for the year ended 31st March, 2025.

3

20. Sudhir and Rajeev were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3. Their partnership deed provided that Sudhir will be allowed a commission of 7% of the net profit.

The net profit of the firm for the year ended 31st March, 2025 was ₹ 1,00,000.

Pass necessary journal entries for allowing commission to Sudhir and transferring the same to Profit and Loss Appropriation Account.

3

21. On 1st April 2024, Yash Ltd. invited applications for issuing 20,000, 9% debentures of ₹ 100 each at a discount of 6%. These debentures were repayable at a premium of 10% after five years. The issue was fully subscribed and the debentures were allotted in full to all the applicants. On 31st March, 2025 the company had a balance of ₹ 1,80,000 in its Securities Premium Account.



Pass necessary journal entries for the issue of 9% Debentures and writing off Loss on issue of Debentures. Also prepare 'Loss on Issue of Debentures Account'.

4



22. किरन, रवीना तथा हिना एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे। फर्म प्रतिवर्ष अपनी पुस्तकें 31 मार्च को बन्द करती है। साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार, किसी भी साझेदार की मृत्यु पर फर्म की ख्याति की गणना पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ के चार गुना के आधार पर की जाएगी। 1 जुलाई, 2025 को हिना की मृत्यु हो गयी। पिछले तीन वर्षों के लाभ थे :

2022-23 ₹ 4,75,000

2023-24 ₹ 4,05,000

2024-25 ₹ 3,20,000

मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिना के भाग की गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी।

- (i) फर्म की ख्याति की तथा ख्याति में हिना के भाग की गणना कीजिए।
- (ii) मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभों में हिना के भाग की गणना कीजिए।
- (iii) ख्याति खाता खोले बिना ख्याति के लेखांकन तथा हिना की मृत्यु के समय लाभ में उसके भाग के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

4

23. सुवन तथा शिवम् एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 7 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

सुवन तथा शिवम् का 31 मार्च, 2025 को स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
लेनदार	5,00,000	बैंक में नगद	2,00,000
पूँजी :		स्टॉक	1,75,000
सुवन 4,00,000		देनदार	1,25,000
शिवम् 5,00,000	9,00,000	संयन्त्र तथा मशीनरी	9,00,000
	14,00,000		14,00,000



उपरोक्त तिथि को फर्म का विघटन हो गया। स्टॉक से ₹ 1,30,000 की वसूली हुई तथा देनदारों से ₹ 1,15,000 की वसूली हुई। संयन्त्र तथा मशीनरी को शिवम् ने ₹ 3,40,000 में ले लिया। ₹ 3,000 के वसूली व्ययों का भुगतान सुवन ने किया।

वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा बैंक खाता तैयार कीजिए।

6



22. Kiran, Raveena and Hina were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. The firm closes its books on 31st March every year. As per the terms of the partnership deed, on the death of any partner, the goodwill of the firm will be calculated on the basis of four times the average profits of the last three years. Hina died on 1st July 2025. The Profits for the last three years were :

2022-23 ₹ 4,75,000

2023-24 ₹ 4,05,000

2024-25 ₹ 3,20,000

Hina's share of profit upto the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit.

- Calculate goodwill of the firm and Hina's share of goodwill.
- Calculate Hina's share in the profits of the firm till the date of her death.
- Pass necessary journal entries for the treatment of goodwill without opening goodwill account and for Hina's share of profit at the time of her death.

4

23. Suvan and Shivam were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 7. On 31st March, 2025, their Balance Sheet was as follows :

Balance Sheet of Suvan and Shivam as on 31st March, 2025

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Creditors	5,00,000	Cash at Bank	2,00,000
Capitals :		Stock	1,75,000
Suvan 4,00,000		Debtors	1,25,000
Shivam 5,00,000	9,00,000	Plant & Machinery	9,00,000
	14,00,000		14,00,000

On the above date the firm was dissolved. Stock realised ₹ 1,30,000 and debtors realised ₹ 1,15,000. Plant and Machinery was taken over by Shivam for ₹ 3,40,000. Expenses of realisation amounting to ₹ 3,000 were paid by Suvan.

Prepare Realisation Account and Partners' Capital Accounts.

6



24. (a) संजय तथा विजय एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे। 1 अप्रैल, 2025 को उन्होंने फर्म के लाभों में $\frac{2}{5}$ भाग के लिए बाबुल को एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। बाबुल के प्रवेश पर निम्नलिखित पर सहमति हुई :

- (i) संजय, विजय तथा बाबुल का नया लाभ विभाजन अनुपात 3 : 3 : 4 होगा।
(ii) फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ के चार वर्षों के क्रय के आधार पर किया जायेगा।

पिछले तीन वर्षों के लाभ थे :

वर्ष	लाभ (₹)
2022-23	16,500
2023-24	17,500
2024-25	18,500

- (iii) बाबुल ख्याति प्रीमियम का अपना भाग नगद लायेगा जिसके आधे का संजय तथा विजय द्वारा आहरण किया जायेगा।
(iv) बाबुल के प्रवेश पर परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा देयताओं के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 70,000 की हानि हुई।
(v) बाबुल के प्रवेश पर फर्म में ₹ 28,000 का सामान्य संचय था।
(vi) ख्याति, पुनर्मूल्यांकन पर हुई हानि तथा सामान्य संचय से सम्बन्धित सभी आवश्यक समायोजनों के पश्चात् संजय तथा विजय के पूँजी खाते क्रमशः ₹ 3,50,000 तथा ₹ 2,50,000 का शेष दर्शा रहे थे। बाबुल फर्म के लाभों में अपने $\frac{2}{5}$ भाग के लिए आनुपातिक पूँजी लाया।

अपने कार्य (गणनाओं) को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए बाबुल के प्रवेश पर उपरोक्त लेनदेनों के लिए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

6

अथवा





24. (a) Sanjay and Vijay were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3. On 1st April, 2025 they admitted Babul as a new partner for $\frac{2}{5}$ th share in the profits of the firm. On Babul's admission, the following was agreed upon :

- (i) The new profit sharing ratio of Sanjay, Vijay and Babul will be 3 : 3 : 4.
- (ii) The goodwill of the firm will be valued at four years purchase of the average profits of the last three years. The profits of the previous three years were :

Year	Profit (₹)
2022-23	16,500
2023-24	17,500
2024-25	18,500

- (iii) Babul will bring his share of goodwill premium in cash, half of which will be withdrawn by Sanjay and Vijay.
- (iv) On Babul's admission, revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in a loss of ₹ 70,000.
- (v) At the time of Babul's admission, the firm had a General Reserve of ₹ 28,000.
- (vi) After making necessary adjustments relating to goodwill, loss on revaluation and general reserve, the capital accounts of Sanjay and Vijay showed balances of ₹ 3,50,000 and ₹ 2,50,000 respectively. Babul brought proportionate capital for his $\frac{2}{5}$ th share in the profits of the firm.

Showing your workings clearly pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on Babul's admission.

6

OR




- (b) अनुज, दिविज तथा शिल्पा एक फर्म में साझेदार थे तथा 2 : 1 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते थे। 31 मार्च, 2023 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

अनुज, दिविज तथा शिल्पा का 31 मार्च, 2023 को स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
पूँजी :		भूमि एवं भवन	8,00,000
अनुज 3,00,000		फर्नीचर	2,40,000
दिविज 4,00,000		स्टॉक	1,20,000
शिल्पा <u>5,00,000</u>	12,00,000	देनदार	1,70,000
देय बिल	60,000	रोकड़	50,000
लेनदार	1,20,000		
	13,80,000		13,80,000

उपरोक्त तिथि को निम्नलिखित शर्तों पर अनुज फर्म से सेवानिवृत्त हो गया :

- (i) ख्याति में अनुज के भाग का मूल्य ₹ 90,000 था और इसका लेखांकन ख्याति खाता खोले बिना किया जाना था।
 - (ii) परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा देयताओं के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 25,000 का लाभ हुआ।
 - (iii) अनुज को देय राशि उसके ऋण खाते में स्थानान्तरित की जानी थी जिसका भुगतान 31 मार्च, 2024 से प्रारम्भ करके दो बराबर वार्षिक किस्तों में 12% वार्षिक ब्याज दर सहित किया जाएगा।
- साझेदारों के पूँजी खाते तथा अनुज का ऋण खाता तैयार कीजिए जब तक उसका पूर्णरूप से भुगतान न कर दिया जाए।





- (b) Anuj, Divij and Shilpa were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 1 : 2. Their Balance Sheet as at 31st March, 2023 was as follows :

Balance Sheet of Anuj, Divij and Shilpa as at 31st March, 2023

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capitals :		Land & Building	8,00,000
Anuj 3,00,000		Furniture	2,40,000
Divij 4,00,000		Stock	1,20,000
Shilpa <u>5,00,000</u>	12,00,000	Debtors	1,70,000
Bills Payable	60,000	Cash	50,000
Creditors	1,20,000		
	13,80,000		13,80,000

Anuj retired on the above date on the following terms :

- (i) Anuj's share of goodwill was valued at ₹ 90,000 and the same was to be treated without opening goodwill account.
- (ii) Revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in a gain of ₹ 25,000.
- (iii) Amount due to Anuj was transferred to his loan account, to be paid in two equal yearly instalments plus interest @ 12% p.a. on the unpaid balance starting from 31st March, 2024.

Prepare Partners' Capital Accounts and Anuj's Loan Account till it is fully discharged.





25. धर्मा लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 3,00,000 समता अंशों में विभाजित ₹ 30,00,000 की अधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत थी। राशि निम्न प्रकार से देय थी :

आवेदन पर – ₹ 2 प्रति अंश

आबंटन पर – ₹ 5 प्रति अंश

प्रथम एवं अंतिम याचना पर – शेष

कंपनी ने सार्वजनिक अभिदान के लिए 90,000 अंश प्रस्तुत किए। सभी अंश अभिदत्त हो गए और कम्पनी ने सभी देय राशि प्राप्त कर ली, केवल अदिति द्वारा धारित 4,000 अंशों को छोड़कर जिन पर आबंटन एवं याचना राशि नहीं मिली और रोहित द्वारा धारित 3,000 अंशों को छोड़कर जिन पर याचना राशि नहीं मिली। संचालकों ने अदिति तथा रोहित के अंशों का हरण कर लिया।

उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

6

(i) धर्मा लिमिटेड की प्राधिकृत पूँजी है :

(A) ₹ 30,00,000

(B) ₹ 3,00,000

(C) ₹ 9,00,000

(D) ₹ 33,00,000

(ii) कम्पनी की निर्गमित पूँजी है :

(A) ₹ 3,00,000

(B) ₹ 30,00,000

(C) ₹ 9,00,000

(D) ₹ 33,00,000

(iii) धर्मा लिमिटेड की अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त पूँजी होगी :

(A) ₹ 9,00,000

(B) ₹ 8,30,000

(C) ₹ 8,56,000

(D) शून्य

(iv) धर्मा लिमिटेड की पुस्तकों में 'अंशधारक निधि' के अन्तर्गत दर्शायी जाने वाली 'अंश पूँजी' की राशि होगी :

(A) ₹ 8,30,000

(B) ₹ 8,59,000

(C) ₹ 9,00,000

(D) ₹ 30,00,000





25. Dharma Ltd. was registered with an authorised capital of ₹ 30,00,000 divided into 3,00,000 equity shares of ₹ 10 each. The amount was payable as follows :

On Application – ₹ 2 per share

On Allotment – ₹ 5 per share

On First and Final Call – Balance

The company offered 90,000 shares for public subscription. All the shares were subscribed and the company received all the money due, except allotment and call money on 4,000 shares held by Aditi and call money on 3,000 shares held by Rohit. The directors forfeited shares of Aditi and Rohit.

Answer the following questions on the basis of above information :

6

(i) The nominal capital of Dharma Ltd. is :

- (A) ₹ 30,00,000 (B) ₹ 3,00,000
(C) ₹ 9,00,000 (D) ₹ 33,00,000

(ii) The issued capital of the company is :

- (A) ₹ 3,00,000 (B) ₹ 30,00,000
(C) ₹ 9,00,000 (D) ₹ 33,00,000

(iii) Subscribed and fully paid capital of Dharma Ltd. will be :

- (A) ₹ 9,00,000 (B) ₹ 8,30,000
(C) ₹ 8,56,000 (D) Nil

(iv) The amount of 'Share Capital' presented in the Balance sheet of Dharma Ltd. under 'Shareholders Funds' will be :

- (A) ₹ 8,30,000 (B) ₹ 8,59,000
(C) ₹ 9,00,000 (D) ₹ 30,00,000





(v) खातों के नोट्स के अन्तर्गत 'अंशहरण खाते' में दर्शायी जाने वाली राशि होगी :

(A) ₹ 32,000 (B) ₹ 12,000

(C) ₹ 44,000 (D) ₹ 29,000

(vi) धर्मा लिमिटेड की अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त पूँजी नहीं होगी :

(A) ₹ 9,00,000 (B) ₹ 8,30,000

(C) ₹ 8,56,000 (D) शून्य

26. (a) जैनरिक फार्मा लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 3,00,000 समता अंशों को ₹ 6 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किये। राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :

आवेदन तथा आबंटन पर – ₹ 4 प्रति अंश (₹ 2 प्रति अंश प्रीमियम सहित)

प्रथम एवं अन्तिम याचना पर – शेष

4,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 40,000 अंशों के लिए आवेदनों को रद्द कर दिया गया तथा आवेदन राशि लौटा दी गयी। शेष आवेदकों को आनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन प्रथम एवं अन्तिम याचना पर देय राशि में कर लिया गया। 3,600 अंशों के एक आवेदक, जैन ने प्रथम एवं अन्तिम याचना का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों का हरण कर लिया गया।

उपरोक्त लेनदेनों के लिए जैनरिक फार्मा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। जहाँ भी आवश्यक हो 'अदत्त-याचना खाता' तथा 'अग्रिम-याचना खाता' खोलिए।

6

अथवा

(b) निम्नलिखित स्थितियों में अंशों के हरण तथा हरण किए गए अंशों के पुनःनिर्गमन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

(i) दीक्षा लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 3000 अंशों का, ₹ 2 प्रति अंश की अंतिम याचना का भुगतान न करने पर, हरण कर लिया। इनमें से 600 अंशों को पूर्ण प्रदत्त, इस प्रकार पुनः निर्गमित किया गया कि ₹ 4,200 पूँजी संचय में हस्तान्तरित हो जाएँ।

(ii) अशोका लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के, 2000 समता अंशों को जो 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे ₹ 60 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) की आबंटन राशि का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। ₹ 20 प्रति अंश की प्रथम एवं अन्तिम याचना अभी तक माँगी नहीं गयी थी। हरण किये गये अंशों को ₹ 70 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमित कर दिया गया।

3 + 3 = 6





(v) In the Notes to Accounts, the amount to be shown under 'Share Forfeiture Account' will be :

- (A) ₹ 32,000 (B) ₹ 12,000
(C) ₹ 44,000 (D) ₹ 29,000

(vi) Subscribed and not fully paid capital of Dharma Ltd. will be :

- (A) ₹ 9,00,000 (B) ₹ 8,30,000
(C) ₹ 8,56,000 (D) Nil

26. (a) Generic Pharma Ltd. invited applications for using 3,00,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 6 per share. The amount was payable as follows :

on Application and Allotment – ₹ 4 per share (including premium of ₹ 2 per share)

on First and Final Call – Balance

Applications for 4,00,000 shares were received. Applications for 40,000 shares were rejected and the application money was refunded. Shares were allotted on pro-rata basis to the remaining applicants. Excess money received on applications was adjusted towards sums due on first and final call. Jain, an applicant for 3,600 shares failed to pay the first and final call. His shares were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of Generic Pharma Ltd. for the above transactions. Open 'calls in arrears account' and 'calls in advance account', wherever necessary.

6

OR

(b) Pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of forfeited shares in the following cases :

(i) Diksha Ltd. forfeited 3,000 shares of ₹ 10 each for non-payment of final call of ₹ 2 per share. Out of these, 600 shares were reissued as fully paid up in such a way that ₹ 4,200 was transferred to capital reserve.

(ii) Ashoka Ltd. forfeited 2,000 equity shares of ₹ 100 each issued at a premium of 10% for non-payment of allotment money of ₹ 60 per share (including premium). The first and final call of ₹ 20 per share was not yet made. The forfeited shares were re-issued at ₹ 70 per share fully paid up.

3 + 3 = 6





भाग - ख

विकल्प - I

(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

27. **कथन-I** : गैर-वित्तीय उद्यमों की स्थिति में ब्याज तथा लाभांश की प्राप्तियों को वित्तीयन गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है।

कथन-II : वित्तीय उद्यमों की स्थिति में ब्याज तथा लाभांश की प्राप्तियों को निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

- (A) दोनों कथन सत्य हैं। (B) कथन I सत्य है तथा कथन II असत्य है।
(C) कथन I असत्य है तथा कथन II सत्य है। (D) दोनों कथन असत्य हैं।

1

28. (a) विपणन योग्य प्रतिभूतियों अथवा लघुकालीन निवेशों के क्रय को रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता क्योंकि :

- (A) ये चालू परिसम्पत्तियाँ हैं। (B) ये रोकड़ तुल्य हैं।
(C) ये अमूर्त परिसम्पत्तियाँ हैं। (D) ये मूर्त परिसम्पत्तियाँ हैं।

1

अथवा

(b) निम्न में से कौन सा प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ का बाह्य प्रवाह नहीं होगा ?

- (A) विपणन योग्य प्रतिभूतियों का क्रय (B) माल के आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान
(C) कर्मचारी हितलाभ व्ययों का भुगतान (D) बीमा प्रीमियम का भुगतान

1



PART – B

Option – I

(Analysis of Financial Statements)

27. **Statement – I** : In case of non-financial enterprises, receipts of interest and dividend are classified as financing activities.

Statement – II : In case of financial enterprises receipts of interest and dividend are classified as investing activities.

Choose the correct option from the following :

(A) Both the Statements are true.

(B) Statement I is true and Statement II is false.

(C) Statement I is false and Statement II is true.

(D) Both the Statements are false. 1

28. (a) Purchase of marketable securities or short term investments are not considered for the preparation of cash flow statement because :

(A) These are current assets

(B) These constitute cash equivalents

(C) These are intangible assets

(D) These are tangible assets 1

OR

(b) Which of the following will not amount to cash outflow from operating activities ?

(A) Purchase of marketable securities

(B) Cash payment to suppliers of goods

(C) Payment of employee benefit expenses

(D) Payment of insurance premium 1





29. निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन एक कम्पनी के 'सकल लाभ अनुपात' को प्रभावित करेगा :

- (i) प्रचालनों से ₹ 1,00,000 का आगम
(ii) ₹ 70,000 मूल्य के माल का क्रय
(iii) ₹ 15,000 लागत के माल का व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरण
(iv) ₹ 50,000 लागत के माल का ₹ 60,000 में विक्रय
- (A) (iv) (B) (i) तथा (ii)
(C) (ii) तथा (iii) (D) (i) तथा (iii)

1

30. (a) स्थिति विवरण तथा लाभ-हानि विवरण की विभिन्न मदों में उचित रूप से संबंध स्थापित करके किसी भी फर्म की शक्तियों तथा कमजोरियों को पहचानने की प्रक्रिया कहलाती है :

- (A) तुलनात्मक विवरण विश्लेषण (B) रोकड़ प्रवाह विश्लेषण
(C) वित्तीय विश्लेषण (D) समान आकार विश्लेषण

1

अथवा

(b) 'वे अनुपात जिनकी गणना व्यवसाय द्वारा इसके हितधारकों को उन राशियों की भुगतान क्षमता को मापने के लिए की जाती है जब व जितने समय पर वे देय हों', जाने जाते हैं :

- (A) ऋण-शोधन-क्षमता-अनुपात (B) तरलता अनुपात
(C) क्रियाशीलता अनुपात (D) लाभ-प्रदता अनुपात

1



31. 31 मार्च, 2024 तथा 2025 को रॉयल शुगर मिल्स लिमिटेड के निम्नलिखित स्थिति विवरणों से एक तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए :

विवरण	नोट सं.	31-3-2025 (₹)	31-3-2024 (₹)
I. समता एवं देयताएँ :			
1. अंशधारक निधियाँ अंश पूँजी		24,00,000	20,00,000
2. अचल देयताएँ दीर्घकालीन उधार		12,00,000	10,00,000
3. चालू देयताएँ व्यापारिक देय		6,00,000	5,00,000
कुल		42,00,000	35,00,000
II. परिसम्पत्तियाँ :			
1. अचल परिसम्पत्तियाँ सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		30,00,000	25,00,000
2. चालू परिसम्पत्तियाँ (a) इन्वेन्टरी		2,00,000	4,00,000
(b) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		10,00,000	6,00,000
कुल		42,00,000	35,00,000

3

32. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III भाग-I के अनुसार निम्न मदों को स्थिति विवरण के मुख्य शीर्षकों तथा उप-मुख्य शीर्षकों (यदि कोई है) के अन्तर्गत वर्गीकृत कीजिए :



- (i) स्टोर्स तथा स्पेयरपार्ट्स
- (ii) पशु धन
- (iii) सार्वजनिक जमा

3



31. From the following Balance sheets of Royal Sugar Mills Ltd. as at 31st March, 2024 and 2025, prepare a Comparative Balance Sheet :

Particulars	Note No.	31-3-2025 (₹)	31-3-2024 (₹)
I. Equity and Liabilities :			
1. Shareholders' Funds			
Share Capital		24,00,000	20,00,000
2. Non-current Liabilities			
Long term borrowings		12,00,000	10,00,000
3. Current liabilities			
Trade Payables		6,00,000	5,00,000
Total		42,00,000	35,00,000
II. Assets :			
1. Non-Current Assets			
Property, plant and equipment and intangible assets		30,00,000	25,00,000
2. Current Assets			
(a) Inventories		2,00,000	4,00,000
(b) Cash & Cash equivalents		10,00,000	6,00,000
Total		42,00,000	35,00,000

3

32. Classify the following items under major heads and sub-heads (if any) in the Balance Sheet of the company as per Schedule-III, Part-I of the Companies Act, 2013 :



- (i) Stores and Spare parts
- (ii) Livestock
- (iii) Public Deposits

3



33. (a) निम्नलिखित सूचना से गणना कीजिए :

- (i) चालू अनुपात; तथा
(ii) ऋण पर नियोजित पूँजी अनुपात

सूचना	₹	
कुल परिसम्पत्तियाँ	6,00,000	
अचल देयताएँ	1,40,000	
अंशधारक निधियाँ	4,20,000	
अचल परिसम्पत्तियाँ	5,20,000	4

अथवा

(b) निम्नलिखित सूचना से गणना कीजिए :

- (i) ऋण-समता अनुपात; तथा
(ii) कुल परिसम्पत्तियों पर ऋण अनुपात

सूचना	₹	
दीर्घकालीन-उधार	8,00,000	
अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	80,000	
दीर्घकालीन प्रावधान	1,20,000	
अंश पूँजी	24,00,000	
संचय एवं आधिक्य	6,00,000	
अचल परिसम्पत्तियाँ	36,00,000	
चालू परिसम्पत्तियाँ	14,00,000	
चालू देयताएँ	10,00,000	4

34. 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गवी लिमिटेड ने स्थायी परिसम्पत्तियों पर ₹ 50,000 मूल्यहास प्रभारित करने तथा सामान्य संचय में ₹ 1,15,000 हस्तांतरित करने के पश्चात् ₹ 8,00,000 लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान ₹ 75,000 की ख्याति अपलिखित की गयी। वर्ष के दौरान कम्पनी ने ₹ 2,00,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को ₹ 30,000 के अधिलाभ पर बेचा। वर्ष के दौरान व्यापारिक प्राप्य ₹ 20,000 से कम हुए तथा व्यापारिक देय ₹ 25,000 से बढ़े। पूर्वदत्त व्यय ₹ 1,000 कम हुए तथा अदत्त किराये में ₹ 5,000 की वृद्धि हुई।



प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए।

6



33. (a) From the following information, calculate :

- (i) Current ratio and
- (ii) Debt to capital employed ratio

Information	₹	
Total Assets	6,00,000	
Non-Current Liabilities	1,40,000	
Shareholders' Funds	4,20,000	
Non-current Assets	5,20,000	4

OR

(b) From the following information, calculate :

- (i) Debt-Equity Ratio and
- (ii) Total Assets to Debt ratio

Information	₹	
Long-term borrowings	8,00,000	
Other long-term liabilities	80,000	
Long term provisions	1,20,000	
Share capital	24,00,000	
Reserves and Surplus	6,00,000	
Non-current Assets	36,00,000	
Current Assets	14,00,000	
Current Liabilities	10,00,000	4

34. For the year ending 31st March, 2025 Gavi Ltd. made a profit of ₹ 8,00,000 after charging depreciation of ₹ 50,000 on fixed assets and transferring ₹ 1,15,000 to general reserve.

Goodwill written off during the year was ₹ 75,000. During the year the company sold machinery of the book value of ₹ 2,00,000 at a gain of ₹ 30,000. During the year, the trade receivables decreased by ₹ 20,000 and trade payables increased by ₹ 25,000. Prepaid expenses decreased by ₹ 1,000 and outstanding rent increased by ₹ 5,000.

Calculate Cash flows from operating activities.

6



भाग - ख

विकल्प - II

(अभिकलित्र लेखांकन)

27. (a) एक अंकगणितीय व्यंजक या फ़ंक्शन का परिणाम क्या कहलाता है ?

(A) क्षैतिज मूल्य

(B) व्युत्पन्न मूल्य

(C) आधारभूत मूल्य

(D) ऊर्ध्वाधर मूल्य

1

अथवा

(b) वी लुक अप () तथा एच लुक अप () में केवल सटीक मान (exact value) लौटाने के लिए रेंज लुक अप के लिए किस मान का उपयोग किया जाता है ?

(A) असत्य (फाल्स)

(B) सत्य (ट्रू)

(C) रिक्त स्थान (ब्लैंक)

(D) शून्य (जीरो)

1

28. (a) आँकड़ों का एन्क्रिप्शन सुगम बनाता है :

(A) आँकड़ों के आसान प्रसंस्करण और रिकॉर्ड रखने में

(B) लेखांकन रिपोर्टों को सुरक्षित करने में

(C) स्मृति सहायक रिकॉर्ड का निर्माण करने में

(D) कोडिफिकेशन में

1

अथवा



(b) ऐक्सल 2006 वर्कशीट पर कितने कॉलम मौजूद है ?

(A) 2056

(B) 256

(C) 275

(D) 26

1



29. निम्नलिखित में से ऐक्सल रिबन में कौन सा फॉर्मूला टैब शामिल नहीं है ?
- (A) परिभाषित नाम (B) पृष्ठ विन्यास
(C) कार्य (फंक्शन) लाइब्रेरी (D) गणना 1
30. जब ऐक्सल टैब या फॉर्मूला की पहचान नहीं करता तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होगा ?
- (A) सही कीजिए a # डीआईवी/0! अशुद्धि (B) सही कीजिए a # एन/ए अशुद्धि
(C) सही कीजिए a # नाम अशुद्धि (D) सही कीजिए a # एनयूएलएल ! अशुद्धि 1
31. 'रडॉर चार्ट्स' क्या हैं ? ये किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं ? 3
32. अभिकलित्र लेखांकन तंत्र के किन्हीं तीन लाभों तथा तीन सीमाओं का उल्लेख कीजिए । 3
33. (a) अभिकलित्र लेखांकन तंत्र के किन्हीं दो तरीकों को समझाइए जो व्यावसायिक डेटा की गोपनीयता की रक्षा करते हैं । 4
- अथवा**
- (b) उस सारणी (टेबल) का नाम बताइए जो बड़ी राशि के डेटा को शीघ्रता से सारांशित करने का एक इंटरैक्टिव तरीका है । ऐसे तीन कारणों का उल्लेख कीजिए कि यह सारणी (टेबल) क्यों बनाई जाती है । 4
34. आप एमएस एक्सेल में कई सेल्स को एक में कैसे जोड़ेंगे ? प्रक्रिया को उलटने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे ? समझाइए । 6





29. Which of the following is not contained on formula tab on Excel ribbon ?
- (A) Defined names (B) Page layout
(C) Function library (D) Calculation **1**
30. What will be displayed on the screen when Excel does not recognise the text or formula ?
- (A) Correct a # DIV/0! Error (B) Correct a # N/A Error
(C) Correct a # Name Error (D) Correct a # Null! Error **1**
31. What are 'Radar Charts' ? What purpose do they serve ? **3**
32. State any three advantages and three limitations of Computerised Accounting System. **3**
33. (a) Explain any two ways in which Computerized Accounting System safeguards the secrecy of business data. **4**

OR

- (b) Name the table which is an interactive way to quickly summaries large amounts of data. State any three reasons why this table is designed. **4**
34. How will you combine multiple cells into one in MS-Excel ? What steps will you follow to reverse the process ? Explain. **6**





67/1/3

2382-3

40

}